

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**छग में आज अरेंज अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश**  
रायपुर (आरएनएस)। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान 'असानी' का असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। देर रात से तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। वहीं आज भी प्रदेश के कई जगहों में हल्की से भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं 24 घंटे के लिए बीजापुर, सुकमा, दंतवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव और बस्तर के लिए चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहा है। वहीं अब यह चक्रवात अन्य शहरों में तेजी से आग बूढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका असर दिख रहा है। यहीं वजह है कि प्रदेश में अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। रायपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं अन्य शहरों में तापमान में गिरावट आई है।

**भिलाई सिकासा की श्रेया का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए**  
भिलाई (आरएनएस)। सीए स्टेडेंट एसोसिएशन भिलाई की श्रेया चटवानी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भाषण स्पर्धा के लिए किया गया है। उन्होंने क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतकर यह अवसर हासिल किया है। इसके साथ ही भिलाई सिकासा से राष्ट्रीय स्पर्धा में जाने वाली वे पहली सदस्य बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर सिकासा चेयरमैन सीए राहुल बत्रा ने सिकासा की तरफ से उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

**राजापुर की छात्राएं बनेंगी, मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत मेहमान**  
रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री ने कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा नीता वर्मा सहित अन्य छात्राओं को अपने गृह ग्राम में व्यक्तिगत मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को उनके गृह ग्राम बेलादी भ्रमण करवाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के राजापुर में भेंट मुलाकात के दौरान नीता वर्मा सहित अन्य छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री के गृह ग्राम देखने की इच्छा जताने पर दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका गृह ग्राम दर्ग जिले के ग्राम बेलादी है। उनकी पढ़ाई मरा के स्कूल में पूरी हुई है। उन्होंने नीता वर्मा सहित अन्य छात्राओं को गृह ग्राम देखने की इच्छा जताने पर कहा कि वह उनके गृह ग्राम में मेहमान के रूप में आए। उन्हें खेत घर और स्कूल भी दिखाएंगे और भोजन भी करवाएंगे।

**साढ़े सात साल का नन्हा सिपाही, पिता की मौत के बाद पुलिस विभाग में दी गई बाल आरक्षक की नौकरी**  
सूरजपुर (आरएनएस)। जिले की पुलिस विभाग में महज साढ़े सात वर्ष के बच्चे को नियुक्ति दी गई है। बाल आरक्षक के रूप में भर्ती किए गए बच्चे के पिता की असाध्यिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बच्चे को पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने नियुक्ति आदेश प्रदाय किया। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर रामकृष्ण साहू ने बताया कि यश कुमार यादव को बाल आरक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। इनके पिता संजय कुमार यादव आरक्षक के पद पर आर्की करंजी में पदस्थ थे। नौकरी के दौरान आर्कीसिक मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही पूरी करने के बाद यश कुमार यादव को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा।

**मितान योजना : कमिश्नर संबित मिश्रा ने घर पहुंच कर दिया जन्म प्रमाण पत्र**

**हितग्राही द्वारा की गई योजना की प्रशंसा**

रायगढ़। मितान योजना के लाभार्थी को उनकी नवजात बेटिया का जन्म प्रमाण-पत्र नगर निगम कमिश्नर संबित मिश्रा ने उनके घर पहुंच कर प्रदान किया। इस दौरान कमिश्नर मिश्रा ने हितग्राही से योजना के संबंध में फीडबैक लिया। हितग्राही ने योजना को नागरिकों के लिए कई मायनों में अत्यंत सुविधाजनक बताते हुए इसकी सराहना की।



नंबर 14545 पर कॉल कर कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन किया था। इस दौरान मितान ने कॉल पर उनके घर पहुंचकर जन्म प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया। इसके बाद बुधवार को गागी मिश्रा को जन्म प्रमाण पत्र बन गया। इस पर कमिश्नर संबित मिश्रा मितान मोहन के साथ टीवी टावर दीनदयाल पुम स्थित हितग्राही के निवास पर जाकर पुत्री की माता पारुल अवस्थी को जन्म प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान कमिश्नर मिश्रा ने योजना के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस पर हितग्राही पारुल अवस्थी ने

कहा कि योजना की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। इसमें लोगों को निगम व राजस्व से संबंधित प्रमाण पत्र घर पहुंचा कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यालयों के चक्कर लगाने और कार्यालयों तक जाने में लगने वाले समय व श्रम के साथ खर्च की भी बचत हो रही है। इस योजना के माध्यम से घर बैठे ही नागरिकों को 13 सेवाओं से जुड़े प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। लोगों के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक पहल है। इस दौरान कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय, सहायक अभियंता सूरज देवानं, मितान नोडल अधिकारी ऋषि राठौर एवं मितान मोहन उपस्थित थे।

**मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 30 जून तक आवेदन आमंत्रित**

रायगढ़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 30 जून 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशुल्क, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।



आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार में अन्य जानकारी के लिए सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए

**भूमि की उर्वरता के साथ सभी फसलों के लिए लाभकारी है वर्मी कम्पोस्ट**

रायगढ़। उप संचालक कृषि, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उर्वरक का अग्रिम उठाव किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के समस्त किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अपने नजदीकी सेवा सहकारी समितियों में उपलब्ध यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक के साथ-साथ वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में फॉस्फोरस तत्व के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर भी उपलब्ध रहता है जो कि पौधों के बढ़वार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वर्मी कम्पोस्ट में पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहने एवं भूमि के भौतिक संरचनाओं में सुधार होने के कारण समस्त फसलों में उपयोग हेतु लाभकारी है। आवश्यकतानुसार



उर्वरक का अग्रिम उठाव पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें, जिससे ऑनलाइन स्टॉक क्लियर होने के पश्चात पुनः उर्वरक का भण्डारण कराया जाना संभव हो सकेगा एवं सेवा सहकारी समितियों में भण्डारण हेतु स्थान के कमी को देखते हुए स्टॉक खाली होने के पश्चात शीघ्र भण्डारण कराया जा सके। जिससे जिले में उर्वरक की आपूर्ति निरंतर बनी रहे।

**मुख्यमंत्री ने बर्तन माँजकर पढ़ाई कर रही निर्धन छात्रा छाया की सहायता के लिए निर्देश**

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सरमना में भेंट मुलाकात के दौरान साईस स्नातक की पढ़ाई कर रही निर्धन छात्रा छाया मिश्रा ने सहायता की मांग की। उसने बताया कि वह बर्तन माँजकर पढ़ाई कर रही है। वह झोपड़ी में रहती है, जहां शौचालय भी नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल ने छाया को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री ने छाया की सराहना करते हुए कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता। मेहनत से सफलता मिलती है, खुशहाली आती है। अपने काम पर गर्व करना चाहिए और सम्मान से जीना चाहिए।

**दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना: पात्र दंपति निर्धारित प्रारूप में कर सकते हैं आवेदन जमा**

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना है। उक्त योजना के तहत दिव्यांग युवक-युवतियों द्वारा विवाह किये जाने पर युवक या युवती में से कोई एक के दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपये एवं दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 01 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदाय किया जाता है। प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए दंपति में से किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से



कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। दंपति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।

उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्रता रखने वाले दंपति को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों के साथ विवाह के अधिकतम 6 माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। योजना के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए समाज कल्याण कार्यालय, रायगढ़ में अथवा विभागीय वेबसाइट sw.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता रखने वाले दंपति योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन अथवा अपने जनपद कार्यालय के माध्यम से या सीधे समाज कल्याण कार्यालय, रायगढ़ में आवेदन कर सकते हैं।

**देश को तय करना होगा कि बिजली चाहिए या नहीं चाहिए- मुख्यमंत्री**

हमदेव जंगल कटाई मामले में दी प्रतिक्रिया  
रायपुर (आरएनएस)। हमदेव अरण्य के जंगलों में दो नई खदान खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि देश का तय करना होगा कि बिजली चाहिए या नहीं चाहिए। यह आबंटन भारत सरकार करती है। राज्य सरकार कोयला मंडल का काम नहीं करती। वन पर्यावरण विभाग भारत सरकार के पास है। हम लोग केवल रिपोर्ट भेजते हैं।  
सीएम बघेल ने कहा कि बचत काम उनका है, हमारा बीच का काम है। उधर से आदेश आए इसको करो नहीं करो तो उधर से बत्ती पड़ती है कि आप यह काम नहीं कर रहे हो तो देश को तय करना पड़ेगा कोयला चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। सीएम बघेल ने कहा कि एक बात है जो हमारे खनिज हैं, उसका दोहन ठीक ढंग से होना चाहिए, मतलब कुछ भी खुदाई हो जाए, कुछ भी पेड़ कटाई हो जाए या हिल्लूक नहीं होगा। दूसरी बात यह है निर्यात के विपरीत कोई भी काम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वहां के वनवासियों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

**तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को 15 अगस्त को मिलेगा प्रमाण पत्र : शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी**

स्कूलों के प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का लगेगा सूचना बोर्ड  
स्कूलों को तम्बाकू मुक्त संस्था घोषित करने दिशा-निर्देश  
रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के सभी जिलों में तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र जारी कर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों के प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए। 100 गज के दायरे में पीली पट्टी से चिह्नकित किया जाएगा। तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में तम्बाकू उपयोग करने वालों को चिह्नकित कर उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी स्कूलों को सिगरेट और तम्बाकू से मुक्त संस्था घोषित करने के लिए सभी संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  
संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को जारी दिशा-निर्देश अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए। शैक्षणिक संस्थाओं को 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। इसका भी प्रदर्शन सूचना बोर्ड पर अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए 100 गज के दायरे में पीली पट्टी से चिह्नकित किया जाना

सुनिश्चित करें। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी शैक्षणिक संस्थाओं में किया जाए।  
जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुए अधिनस्थ सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने और इस कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। शैक्षणिक संस्थाओं में तम्बाकू उपयोग करने वाले को चिह्नकित कर उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर सभी जिलों में अधिक संस्थाओं को जिलाधीश, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

**मोटरसाइकिल की डिक्की में भरकर ले जा रहा था लाखों रुपए का गांजा, हुआ गिरफ्तार**

बसना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गिरफ्तार आरोपी है मध्य प्रदेश का  
महासमुंद्र (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों में उड़ीसा से गांजा भरकर ले जा रहे एक युवक को मोटरसाइकिल समग्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। महासमुंद्र जिले के बसना पुलिस ने 45 किलो गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को 9 लाख के गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गांजा तस्कर कार से गांजा उड़ीसा से मध्यप्रदेश के जबलपुर ले जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ बसना पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। बसना पुलिस द्वारा

पदमपुर सड़क पर वाहनों की जांच की जा कर थी। इसी दौरान उड़ीसा पदमपुर क्षेत्र की ओर से आ रहे एक कार वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी एक आरोपी बलवंत सिंह बैठा मिला जिस से पूछताछ करने पर और उड़ीसा जाने का कारण पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा संदेह के आधार पर जब कार की तलाशी ली गई। कार की डिक्की में अलग-अलग पैकेट में रखे 40 किलो गांजा मिला। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा के तहत प्रक्रण दर्ज किया गया है और आरोपी बलवंत सिंह को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। बसना पुलिस द्वारा गांजा तस्कर पर की गई इस कार्यवाही से गांजा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।

**कौशल्य मातृत्व योजना : सुरक्षित मातृत्व और बच्ची के लिए मजबूत पहल**

द्वितीय संतान बालिका होने पर राज्य सरकार दे रही पांच हजार रुपए की सहायता  
रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्य मातृत्व योजना चलाई जा रही है। महिलाएं जब बालिका विभाग द्वारा संचालित यह नई योजना 1 जनवरी 2022 से प्रभावशील है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में पांच हितग्राहियों को चेक प्रदान करने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। सुरक्षित मातृत्व और बच्ची के लिए यह योजना एक मजबूत पहल साबित होगी।  
कौशल्य मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता राशि प्रदान करना है, ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त विश्राम

कर सके। योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका जन्म 01 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एकमुश्त कुल 5000/- रूपये की राशि का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ मिलने से माताएं स्वयं एवं बालिका के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त ध्यान दे सकेंगी। इससे बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। योजना से गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।  
योजना का लाभ लेने के लिए माता को प्रसव पूर्व कम से कम एक बार जांच करवाना और बच्चे के जन्म का पंजीयन कराना जरूरी है। इसके साथ ही इच्छुक पात्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए लाभार्थी स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित चयन पत्र/सहमति पत्र तथा सुसंगत दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर अंतर्गत केन्द्र में दे सकते हैं।

**जब मेहनत का फल मिलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है - मुख्यमंत्री**

भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सरमना में गौठान से जुड़ी महिलाओं से हुए ठठठ  
गौठान में अनेक गतिविधियों का संचालन कर आर्थिक संवल बन रही महिलाएं  
रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज सरगुजा के सरमना पहुंचे। यहां सरई पेड़ की छांव के नीचे मुख्यमंत्री ने बैठकर लोगों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत बन रही है। आत्मविश्वास से लबरेज



जीवन पर प्रभाव को भी जानने का प्रयास मुख्यमंत्री बघेल ने किया। इस दौरान सरमना गौठान से जुड़कर काम कर रही स्व-सहायता समूह की महिलाओं से मुख्यमंत्री बघेल रूबरू हुए यहां महिलाओं ने बताया कि वे गौठान में ही अनेक तरह की आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रही हैं और वे आर्थिक रूप से संवल बन रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज

मुख्यमंत्री यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शासकीय योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयित हो भी रही हैं या नहीं। शासकीय योजनाओं का लाभ आमजन को कितना मिल पा रहा है और जनता अब भी किन समस्याओं से जूझ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का आज सरमना पहुंचना हुआ। मुख्यमंत्री ने गौठान की स्थिति पर जानकारी ली। वहीं महिलाओं से गौठान में संचालित गतिविधियों को जाना। गौठान से जुड़कर काम कर रही स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि गौठान में जो गोबर खरीदी जा रही है, उससे वे वर्मी कम्पोस्ट के रूप में जैविक खाद का निर्माण कर रही हैं। खाद बेचकर अब तक समूह को 68 हजार का लाभ हुआ है। वहीं गौठान में ही मुर्गीपालन, बटर पालन किया जा रहा

है। इससे उन्हें एक लाख 65 हजार रुपये का आर्थिक लाभ हो चुका है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें मुर्गीपालन में अब तक सबसे अधिक लाभ हुआ है। प्रतिदिन औसतन 150 नग अंडा की बिक्री 6 रुपये प्रतिनग अंडा के लिहाज से वे करती हैं।  
समूह को अब नए अवसर तलाश : स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि गोबर से महिलाओं ने बताया कि गोबर से उत्पाद बनाने के साथ मुर्गीपालन, बटर पालन तो कर ही रही हैं। फिनाइल बनाकर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई भी की जा रही है। इसके अलावा अब समूह नए अवसर भी तलाश रही है। इस कड़ी में वे मछलीपालन और सुकर पालन की भी योजना बना रही हैं। यह सुनकर मुख्यमंत्री ने उन्हें मुर्गीपालन, बटर पालन किया जा रहा प्रोत्साहित किया।